

प्रेस नोट थाना बांसगांव दिनांक 30-09-2020

मन्दिर उड़ाने की धमकी देने वाला अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण(दक्षिणी) श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी बांसगांव श्री नितेश सिंह के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री जगत नारायण सिंह के निकट मार्गदर्शन में मन्दिर गोरखनाथ को उड़ाने की धमकी देने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम को जरिएमुखबीर खास से सूचना मिली कि साहब आपके मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त शिवेन्द्र सिंह पुत्र सुनील सिंह सा0 बैदौली बाबू थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वह पैदल ही चतुरबन्दुआरी की तरफ जा रहा है। पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर मुखबीर की निशान देही पर बताये गये स्थान के पास पहुंचे तो मुखबीर खास द्वारा गोगहरा पुल के पास इशारा कर बताया कि साहब जो व्यक्ति निला जिन्स व आसमानी कलर का शर्ट पहने है, वही है और स्वयं हट-बढ गया। जिसे पुलिस टीम द्वाराहिकमत अमली से एक बारगी दबिश देकर घेर घार कर दस से पन्द्रह कदम दूर जाते जाते गोगहरा पुल पर पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से उसका नाम पता पुछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम शिवेन्द्र सिंह पुत्र सुनील सिंह निवासी ग्राम बैदौली बाबू थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर उपरोक्त बताया। चूकि अभियुक्त द्वारा कारित किये गये कार्य से मन्दिर परिसर गोरखनाथ में अफरा तफरी व भय का माहौल व्याप्त है जिससे आम जन मानस पूरी तरह से अस्त व्यस्त होने के कारण अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी की जानी आवश्यक प्रतीत होने कारण ऐसे व्यक्ति को पुनः ऐसे अपराध में शामिल होने से रोकने के लिए कारण गिरफ्तारी बताते हुए बाजाफता बाकायदा मा0 सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन करते हुए समय करीब 14.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। तथा थाना स्थानीय पर लाकर दाखिल कर नियमानुसार कार्यवाही करते न्यायालय रवाना किया गया।

पंजीकृत किये गये अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 646/2020 धारा 182/505/507 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर नाम पता अभियुक्त-

1. शिवेन्द्र सिंह पुत्र सुनील सिंह सा0 बैदौली बाबू थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का समय व स्थान-

दिनांक 30.09.2020 समय 14.45 बजे स्थान - गोगहरा पुल

गिरफ्तारी में शामिल कर्मचारीगण-

1. उ0नि0 मनोज कुमार गुप्ता
2. आरक्षी जय प्रकाश यादव